



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, अक्टूबर 4, 1979/आश्विन 12, 1901

No. 313]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 1979/ASVINA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 565(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 186/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 अक्टूबर, 1978 को अधिकांश करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम की, उस पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्राविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहणीय शुल्क में अधिक है।

सारणी

क्रम सं.	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)

1. शिलिकाओं या बिलेटों से विनिर्मित
तार की छड़ों से भिन्न एल्यू-
मिनियम।

मूल्यानुसार

40 प्रतिशत

2. शिलिकाओं या बिलेटों से विनिर्मित
तार की छड़ें।

प्रति मीटरी टन

एक सौ चौत्तीस

रुपए।

[फा. सं. 335/4/79-टी.आर.यू.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 565(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 186/78-Central Excises, dated the 18th October, 1978, the Central Government hereby exempts aluminium of the description specified in column (2) of the Table below and falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
1	2	3
1.	Aluminium, other than wire rods manufactured from ingots or billets.	40 percent, ad valorem
2.	Wire rods manufactured from ingots or billets.	Rupees one hundred and thirty four per metric tonne.

[F. No. 335/4/79-TRU]

सा. का. नि. 566(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 27 के अन्तर्गत आने वाली, और एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के साथ पठित, तत्समय यथा प्रवृत्त उक्त आदेश में अन्तर्षिष्ट उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार विक्रय या प्रवाय किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित एल्युमिनियम शिलिकाओं को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना उपर्युक्त आदेश में अन्तर्षिष्ट उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियत की गई उस विक्रय कीमत में से, जो उसके उत्पादक को, एल्युमिनियम शिलिकाओं के लिए कीमत के रूप में संदेय है, एल्युमिनियम कीमत समकरण रकम की कटौती करने के पश्चात् आए मूल्य के आधार पर संगणित शुल्क से अधिक है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, 'एल्युमिनियम कीमत समकरण रकम' और 'उत्पादक' पदों के वे ही अर्थ होंगे, जो एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 में क्रमशः उनके हैं।

[फ. सं. 335/4/79-टी.आर.यू.]

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium ingots, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and required by the Central Government to be sold or supplied in terms of the provisions contained in the Aluminium (Control) Order, 1970, as in force for the time being, read with the notifications issued thereunder, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty calculated on the basis of the value arrived at after deducting the aluminium price equalisation amount from the sale price fixed by the Central Government in terms of the provisions contained in the aforesaid order as the price payable for aluminium ingots to the producer thereof.

Explanation :—In this notification, the expressions 'aluminium price equalisation amount' and 'producer' shall have the same meanings as are assigned to them in the Aluminium (Control) Order, 1970.

[F. No. 335/4/79-TRU]

सा. का. नि. 567(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 223/62-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद 15 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“15. शिलिकाओं या बिलेटों से विनिर्मित तार की छड़ों से भिन्न एल्युमिनियम”।

[फ. सं. 335/4/79-टी.आर.यू.]

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962, namely :—

In the said notification, for item 15, the following item shall be substituted, namely :—

“15. Aluminium, other than wire rods manufactured from ingots or billets”.

[F. No. 335/4/79-TRU]

सा. का. नि. 568(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 187/78-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 अक्टूबर, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “मद सं. 27 के अन्तर्गत आने वाले”, शब्दों और अंको के पश्चात् “एल्युमिनियम शिलिकाओं से भिन्न”, शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 335/4/79-टी.आर.यू.]

टी. आर. रुस्तगी, अवर सचिव

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 187/78-Central Excises, dated the 18th October, 1978, namely :—

In the said notification, after the words, figures and brackets “the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).”, the words “other than aluminium ingots,” shall be inserted.

[F. No. 335/4/79-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.